



HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED

Regd. Office : R-815, (B-11), New Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Email : hillridgeinvest@gmail.com, Website : hillridgeinvestments.in, CIN : L65993DL1980PLC010757
Tel. : +91-11-28744604, Mob. : +91-9891095232

Date: 10-07-2019

**To,
Department of Corporate Services
Metropolitan Stock Exchange of India Limited
Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block,
Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400098**

Sub: - Submission of Newspaper Clipping of Advance Notice for the Board Meeting as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Symbol-HILLRIDGE).

Dear Sir,

With reference to the above mentioned subject, please find attached herewith the copies of Newspapers- Dainik Mahalakshmi Bhagyodaya (Hindi News Paper) and Money Makers (English Newspaper) dated 10-07-2019 in which the notice of Board Meeting has been published.

You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

Thanking You,
Yours Faithfully,

**For and on behalf of
HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED**


Anuradha

(Company Secretary cum Compliance Officer)

MM EDIT

Market mayhem

Markets tanked on Monday in response to the Budget's tax proposals, being spooked in particular by the sharp rise in tax incidence for foreign portfolio investors (FPIs) by way of long term capital gains (LTCG) and short term capital gains (STCG). BusinessLine reported on Monday as to how the effective rate of peak LTCG and STCG will be 14.25 per cent and 21.37 per cent, respectively, three percentage points higher than at present. The expected rise in supply of shares following a rise in the mandatory public float requirement added to the adverse sentiment, besides a 20 per cent tax on share buybacks. While SEBI is likely to give companies some time to dilute their holdings, investors are perturbed. The higher surcharge on high income earners will affect FPIs as well. India Inc expected the 25 per cent corporate tax rate to apply to all firms, with the ₹400-crore threshold effectively leaving out the listed entities. The Centre must reduce uncertainties on the LTCG and STCG fronts, keeping in view the prospects of rapid flight of capital to competing bourses. At a time of global market uncertainties on various counts, this move could have been avoided for now. Higher tax on equities may add to the preference for debt over equity flows, with their attendant issues, such as the role of global interest rate movements playing a crucial role. Capital into equities would be based on risk assessments, and can drive economic growth at a time when debt funds in the domestic market have dried up as a result of infirmities in the banking sector and NBFC space. The 2018-19 Budget had seen the reintroduction of LTCG, which had been scrapped in 2004 and replaced by the Securities Transaction Tax. Market players are paying STT, commodity transaction tax and dividend distribution tax, apart from a bevy of levies. A consistent structure would reduce upheavals. With the markets regulator having introduced checks and balances in market behaviour, markets could have done with a breather. It did not help that global markets were weak on Monday, as strong US jobs data implied that the Fed may not cut rates.



A delegation led by the President of PICCI, Shri Sandip Somany meeting the Minister of State for Labour and Employment (Independent Charge), Shri Santosh Kumar Gangwar, to discuss various issues related to Labour and creating more employment generation in country, in New Delhi.

Ducati Multistrada 1260 Enduro launched at ₹ 20 lakhs

Our Correspondent

Mumbai/July 09
Ducati has launched its flagship adventure tourer, Multistrada 1260 Enduro in India. It is available in two colour schemes – Red and Sand, and priced at Rs.19.9 lakhs, and Rs.20.23 lakhs, respectively. As compared to the Ducati Multistrada 1200 Enduro, launched in 2016, 1260 Enduro gains in features, electronics and an updated engine. It enters a segment where BMW R 1250 GS, and Triumph Tiger 1200 XCx show off their prowess.

New Multistrada 1260 Enduro is open for bookings at company dealerships, and marks a new chapter for true off-road enthusiasts and adventure tourers in India. It is seen with some on road and off road centric features, and comes powered by a 1262 cm3 Ducati Testastretta DVT engine capable of 158 PS power and 128 Nm torque at



7,500 rpm. It receives Ride by Wire and four riding modes of Sport, Touring, Urban and Enduro and electronics among which are semi active Sachs suspension at 185mm front and rear and a 30 liter fuel tank capacity offering over 450 km range. Multistrada 1260 Enduro also gains in terms of better ergonomics over its predecessor. It

comes in with a new seat, well positioned handlebars and centre of gravity which is lower than that offered on the Multistrada 1200 Enduro. It also gets Ducati Quick Shift Up and Down for enhanced riding experience, fluid upshift and down shift gear meshing and sits on spoked wheels measuring 19" front and 17" rear. The

advanced electronics also include 6 axis Bosch Inertial Measurement Unit, Bosch Cornering, Ducati Cornering Lights and Ducati Wheelie Control. DWC and DRC can be set to one of 8 different levels or can be deactivated completely. The company has also added Vehicle Hold Control to the new 1260 Enduro allowing for more efficient uphill starts while the bike also sports a Bosch IMU which interacts with semi active Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution control system. The on-board electronics and connectivity features can be accessed via a 5", full color TFT screen with Ducati Multimedia System which connects to the rider's smartphone via Bluetooth. This allows for access to calls, text messaging and music. Sergi Canovas, Managing Director of Ducati India said, "With its debut back in 2016, Multistrada 1200 Enduro made.

Oil prices drop as trade tensions stoke economy worries

Our Correspondent

Mumbai/July 09
Oil rose above \$64 a barrel on Tuesday as OPEC supply cuts and Middle East tensions outweighed the U.S.-China trade dispute that is dragging on the global economy and oil demand. OPEC and its allies last week agreed to extend their supply-cutting deal until March 2020. Brent has risen almost 20 percent in 2019 supported by the pact and also tensions in the Middle East, especially concerns about Iran's nuclear program. Brent crude, the global benchmark, rose 38 cents to \$64.49 a barrel by 0910 GMT. U.S. West Texas Intermediate crude was up 20 cents to \$57.86. "OPEC and its allies are doing their best to support the market," said Tamas Varga, an analyst with PVM. "Oil prices are to hold up reasonably well during coming months or at least they are not to fall out of bed." Rising tensions between Iran and the United States have brought the two countries.



The DG, Narcotics Control Bureau (NCB), Shri Abhey, the Joint Secretary, Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC), Myanmar, Pol. Brig. Gen. Win Naing and the Senior Officers of Narcotics Control Bureau (NCB), India and Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC), Myanmar, in a group photograph at the 4th Director General level talks between NCB, India and Central Committee for Drug Abuse Control (CCDAC), Myanmar, in New Delhi on July 09, 2019.

Your bank may not be recommending the right fund to you

Our Correspondent

Mumbai/July 09
When you walk into your bank branch to buy a mutual fund (MF) scheme, what do you expect? You would want your relationship manager to understand your financial goals and recommend a solution that is in your best interests, right? Well, it doesn't quite turn out that way.

A compilation of data on commissions (from industry body AMFI) that distributors—including banks and brokerage houses—earned in the year of 2018-19 and the funds that they have sold, indicates that banks prefer to sell their sister firms' MF schemes more than those from other houses. It doesn't seem to matter if their in-house funds make the cut or not in terms of performance records and



investor suitability.

And, the story doesn't stop with just the banks; even brokerages belonging to large financial services groups seem are partial to their own sister firms' MFs, according to a Moneycontrol analysis based on data provided by Prima database <see table>. SEBI guidelines require

mutual funds are required to disclose the commissions they pay distributors if these entities are present in at least 20 locations or if they generate inflows of a minimum of Rs 100 crore in a financial year or if they earn commissions in excess of Rs 1 crore annually across industry or Rs 50 lakh from

a single fund house.

According to AMFI data, there were 2,750 distributors who matched one or more of these criteria.

We shortlisted the top 21 distributors based on the quantum of commissions that all distributors earned in the year of 2018-19.

Of the total commissions that Axis Bank earned, 57 per cent of its commissions were earned from selling Axis Asset Management's schemes. Of its total assets (amounts invested by its customers in the mutual funds through the bank), 57 per cent was in Axis AMC schemes alone. Next comes ICICI Prudential AMC, which accounted for just 11 per cent of Axis Bank customers' mutual fund assets. Other private sector banks aren't far behind in suggesting group company schemes to their customers.



and sustainability of the double digit revenue growth momentum. "While TCS does not give an explicit growth guidance, management has been optimistic about continuing double-digit growth in FY20 despite some macro headwinds - our estimate implies 12% YoY constant currency growth in 1Q. Deal TCV (total contract value) has been averaging \$6 billion over the last 2 quarters and will be the other key metric to look out for," Jefferies India Pvt Ltd said in a results preview note.

Analysts at Jefferies and Kotak Institutional Equities expect TCS's profitability

margins to drop 60-70 basis points from March quarter. This will be true for most IT companies. "While the reasons for decline (in margins) will vary across companies, the broad factors are localization and increase in cost structure in the US, investments in digital and large deal-transition costs," analysts at Kotak said in a note.

Companies are facing a talent crunch at a time when utilisation levels are already at optimal levels. Costs related to visas and increased onsite hiring are not helping either. The depreciation in rupee used to offset the impact of wage hikes to some extent. But companies have no such benefit this time. The rupee has appreciated 1.2% against the US dollar last quarter.

Analysts say cost pressures will be more pronounced for some other companies who are lagging behind in digital.

Job cuts in Deutsche Bank From NYC to Bengaluru, employees' careers end in an envelope

Our Correspondent

New Delhi/July 09

Summoned by HR to be handed a Deutsche Bank envelope, many of its staff across the world then left their desks for the last time on Monday, shown the door by their German employer within hours of a restructuring announcement. Deutsche Bank confirmed on Sunday that it was closing huge parts of its trading businesses, with staff in its equities division in Sydney and Hong Kong among the first to be told their roles would go. "If you have a job for me, please let me know," said a banker leaving the Hong Kong office on Monday. Staff leaving in Hong Kong were holding envelopes with the bank's logo. Three employees took a picture of themselves beside a Deutsche Bank sign outside, hugged and then hailed a taxi. "They give you this packet and you are out of the building," said one equities trader. "The equities market is not that great so I may not find a similar job, but I have to deal with it," said another. At the bank's Wall Street office, staff impacted by the cuts were summoned to the cafeteria to learn of their fate. A notice inside the building's lobby told staff the cafeteria would be closed until 11.30 a.m. EST. Hundreds of staff were informed during the meetings that their positions were being cut, sources within the bank told Reuters. They also received details of their redundancy packages. One source said staff could be seen saying their goodbyes to colleagues upon leaving the cafeteria. Speaking outside the bank's office, one employee told Reuters the cuts had been anticipated for weeks. "People have been planning their next moves but it's a tough market," the person said, speaking on condition of anonymity. Another employee, who asked not to be named, said the bank held a short meeting in its auditorium at 9.30 a.m. EST to inform staff of the cutbacks. He said he was later handed an envelope informing him of his redundancy.

Govt likely to give up direct controlling stakes in ONGC

Our Correspondent

New Delhi/July 09

India will likely give up direct control of its most-profitable state-run behemoths as Prime Minister Narendra Modi seeks to keep the budget deficit in check, while reviving investments to spur economic growth. The government has identified the biggest energy companies such as Oil & Natural Gas Corp., Indian Oil Corp., NTPC Ltd. and GAIL India Ltd. as probable candidates for cutting its direct holding to below 51 per cent, Atanu Chakraborty, who steers Modi's asset sale department, said in an interview Monday in New Delhi. "Government's indirect holding, through arms such as Life Insurance Corp. of India, will stay above 51%," Finance Minister Nirmala Sitharaman last week set a record Rs 1.05 trillion (\$15 billion) asset sales target in the year started April 1, while proposing to raise taxes on the wealthy, extract higher dividends from the central bank and increase duties on gold and gasoline to boost revenue and lower the budget gap to 3.3% of gross domestic product. The proposal to lower direct holdings in some state-run companies below 51% was also part of Sitharaman's budget proposals, which she said would be considered on "case-to-case basis." "The government has to consider bringing in strategic investors and give them a say in the management," said Deven Choksey, managing director at K.R. Choksey Shares and Securities Pvt.

NATURE INDIA COMMUNIQUE LIMITED
CIN: L1200DL1997PLC01240
Regd. Off: B-415, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060.
Email: natureindia@natureindia.com
Website: www.natureindia.in Ph: 011-25215040

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 22nd July, 2019 at 10:00 A.M. at the Regd. Office of the Company, Inter-alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.natureindia.in and also on the website of MSEI Ltd www.mseil.in.

By order of the Board
For Nature India Communique Ltd
Sd/-
Bharat Bhushan
(Managing Director)
DIN: 00538006
Place: New Delhi
Date: 09.07.2019

GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED
CIN: L2720DL1997PLC01240
Regd. Off: B-415, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060.
Email: genesisdevelopers@genesisdh.com
Website: www.genesisdevelopersdh.com Ph: 011-25215040

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 18th July, 2019 at 2:30 P.M. at the registered office of the Company, Inter-alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business with the permission of the Chairman, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.genesisdevelopersdh.com and also on the website of MSEI Ltd www.mseil.in.

By order of the Board
For Genesis Developers And Holdings Ltd
Sd/-
Deepak Tyagi
(Managing Director)
DIN: 02780361
Place: New Delhi
Date: 09.07.2019

HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED
CIN: L2720DL1997PLC01240
Regd. Off: B-415, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060.
Email: hillridgeinvestments@gmail.com
Website: www.hillridgeinvestments.in Ph: 011-25215040

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will be held on Monday, 22nd July, 2019 at 4:00 P.M. at the Regd. Office of the Company, Inter-alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.hillridgeinvestments.in and also on the website of MSEI Ltd www.mseil.in.

By order of the Board
For Hillridge Investments Limited
Sd/-
Anurag Chandra
Company Secretary
Cum Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 09.07.2019

ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED
CIN: L2820DL1997PLC01240
Regd. Off: B-415, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Corporate Off: 47/2, Bandra East Station Road, Bandra East, Mumbai-400051
Email: alstonetextiles@alstonetextiles.com
Website: www.alstonetextiles.com Ph: 011-25215040

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 19th July, 2019 at 02:30 P.M. at the Regd. Office of the Company, Inter-alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.alstonetextiles.com and also on the website of MSEI Ltd www.mseil.in.

By order of the Board
For Alstone Textiles (India) Limited
Sd/-
Deepak Kumar Choksey
(Managing Director)
DIN: 00538009
Place: New Delhi
Date: 09.07.2019

SNS LABORATORIES LIMITED
CIN: L2820DL1997PLC01240
Regd. Off: Office No. 322, 3rd Floor, S.S. Plaza Commercial Complex, Mayapuri, New Delhi-110029
Corporate Off: 47/2, Bandra East Station Road, Bandra East, Mumbai-400051
Email: sns@snslabs.com
Website: www.snslabs.com Ph: 011-25215040

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 18th July, 2019 at 11:45 a.m. at the Regd. Office of the Company, Inter-alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.snslabs.com and also on the website of MSEI Ltd www.mseil.in.

By order of the Board
For SNS Laboratories Limited
Sd/-
Mehul Arora
(Managing Director)
DIN: 00795853
Place: Gurugram
Date: 09.07.2019

INDIA STUFFYARN LIMITED
(Formerly known as India Stuffs Limited)
CIN: L2820DL1997PLC01240
Regd. Off: B-415, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Corporate Off: 47/2, Bandra East Station Road, Bandra East, Mumbai-400051
Email: indiastuff yarn@indiastuff yarn.com
Website: www.indiastuff yarn.com Ph: 011-25215040

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 18th July, 2019 at 02:30 P.M. at the Registered office of the Company, Inter-alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.indiastuff yarn.com and also on the website of MSEI Ltd www.mseil.in.

By order of the Board
For India Stuffyarn Limited
Sd/-
Bharat Bhushan
(Managing Director)
DIN: 00538009
Place: New Delhi
Date: 09.07.2019



FICCI के अध्यक्ष श्री संदीप सोमानी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री संतोष कुमार गंगवार से मिला, जिन्होंने लेबर से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और नई दिल्ली में देश में अधिक रोजगार सृजन किया।

ताजमहल और फतेहपुर सीकरी में शटल से लेकर ट्राम तक चलेगी

लखनऊ, 09 जुलाई (ह.स.)

आगरा से फतेहपुर सीकरी तक ट्राम चलेगी। फतेहपुर सीकरी के अनूप तालाब में कच्चीली से समां बांधा जाएगा। ताजमहल पर किस्सागोई भी होगी। आगरा और फतेहपुर सीकरी को आईकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए ये सारी कवायद होगी। देश के 17 आईकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट में यूपी से आगरा और फतेहपुर सीकरी का चयन किया गया है। इन पर्यटक स्थलों को केन्द्र



सरकार विकसित करेगी। राज्य सरकार ने आगरा व फतेहपुर सीकरी को आईकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए केन्द्र में प्रस्ताव भेज दिया है। आगरा में बीते वर्ष 7.4 लाख विदेशी पर्यटक आये लेकिन इनमें से 50 फीसदी ही रात में आगरा

में रुके। वहीं आगरा जाने वाले पर्यटक ताजमहल के अलावा अन्य पर्यटक स्थलों पर कम ही जाते हैं। लिहाजा यूपी सरकार ने इन सारी चीजों को कार्ययोजना में शामिल किया है। ताजमहल को खूबसूरती निहार सकेंगे नाव से: ताजमहल से अन्य पर्यटक स्थलों तक जाने के लिए नाव भी चलाई जाएगी। इसके लिए 5.7 किमी का रूट निश्चित किया गया है। इसके लिए बोट क्लब और यमुना रिवरफ्रंट वॉक को विकसित किया जाएगा। इसमें जगह-जगह पर वॉच टॉवर, मंचान आदि बनाई जाएंगी। क्राफ्ट बाजार होगा। वहीं शिल्पग्राम में किस्सागोई के कार्यक्रम भी आयोजित होंगे ताकि लोगों की दिलचस्पी इसे सुनने में भी। कार्ययोजना में पूर्व व पश्चिमी गेट से प्रवेश दिया जाने और निकलने की व्यवस्था दक्षिणी गेट से किये जाने पर जोर दिया गया है ताकि यहां से ताजगंज एरिया भी पर्यटक घूम सके। फतेहपुर सीकरी और आगरा के बीच राज्य सरकार ने ट्राम चलाने का प्रस्ताव दिया है ताकि 40 किमी की दूरी को पर्यटक दिलचस्प ढंग से तय कर सकें। वहीं फतेहपुर सीकरी के अंदर अनूप तालाब में साप्ताहिक आयोजन के तौर पर कच्चीली नाइट व थियेटर के आयोजन का भी प्रस्ताव है।

NATURE INDIA COMMUNIQUE LIMITED

Regd. Off: B-915, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060.
Email: natureindia@rediffmail.com
Website: www.natureindia.in, Ph: 011-25815486

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Monday, 22nd July, 2019 at 10.00 A.M.** at the Regd. Office of the Company, Inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.natureindia.in and also on the website of MSEI Ltd www.mseil.in.

By order of the Board
For Nature India Communique Ltd
Sd/-
Bharat Bhatnagar
Managing Director
DIN: 00538006
Place: New Delhi
Date: 09-07-2019

GENESIS DEVELOPERS AND HOLDINGS LIMITED

Regd. Off: B-915, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060.
Email: genesisdevelopers@rediffmail.com
Website: www.genesisdevelopersholding.com, Ph: 011-25738587
Email: genesis@genesisdevelopersholding.com, Website: www.genesisdevelopersholding.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, 18th July, 2019 at 2.00 P.M.** at the registered office of the Company, Inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business with the permission of the Chairman, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.genesisdevelopersandholdings.com and also on the website of MSCI Ltd www.mseil.in.

For Genesis Developers And Holdings Ltd
Sd/-
Deepak Tyagi
Managing Director
DIN: 02760361
Place: New Delhi
Date: 09-07-2019

HILLRIDGE INVESTMENTS LIMITED

CIN: L35902DL19001PL01077
Regd. Off: B-915, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060.
Email: hillridgeinvest@gmail.com
Website: www.hillridgeinvestments.in

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Monday, 22nd July, 2019 at 4.00 P.M.** at the Regd. Office of the Company, Inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.hillridgeinvestments.in and also on the website of MSCI Ltd www.mseil.in.

By order of the Board
For Hillridge Investments Limited
Sd/-
Anuradha
Company Secretary
Cum Compliance Officer
Place: New Delhi
Date: 09-07-2019

ALSTONE TEXTILES (INDIA) LIMITED

CIN: L28501DL19001PL02187
Regd. Off: B-915, New Rajinder Nagar, New Delhi-110060
Corporate office: 101/102, Jan Bhawan, Gali No.5, Station New Delhi-110009
Email: alstonetextiles@gmail.com
Website: www.alstonetextiles.in, Ph: 011-25762621

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, 19th July, 2019 at 02.00 P.M.** at the Regd. Office of the Company, Inter alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.alstonetextiles.in and also on the website of BSE Ltd www.bseindia.com.

By order of the Board
For Alstone Textiles (India) Limited
Sd/-
Deepak Kumar Bhojak
Managing Director
DIN: 00933559
Place: New Delhi
Date: 09-07-2019

SNS LABORATORIES LIMITED

CIN: L28501DL19001PL02205
Regd. Off: Office No. 322, 3rd Floor, S.S. Plaza Commercial Complex, Sector-15, Gurgaon, Haryana-122001
Corporate office: 101/102, Jan Bhawan, Gali No.5, Station New Delhi-110009
Email: sns@snslaboratories.in
Website: www.snslaboratories.in, Ph: 011-25325259

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulations 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, 18th July, 2019 at 11.45 a.m.** at the Regd. Office of the Company, Inter alia, to consider and approve the unaudited financial results for the quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.snslaboratories.in and also on the website of MSCI Ltd www.mseil.in.

By order of the Board
For SNS Laboratories Limited
Sd/-
Mohat Arora
Managing Director
DIN: 06788953
Place: Gurugram
Date: 09-07-2019

INDIA STUFFYARN LIMITED

(Formerly known as India Stuffs Limited)
CIN: L35902DL19001PL02279
Regd. Off: 955, Double Storey, New Rajinder Nagar New Delhi-110060
Corporate office: 101/102, Jan Bhawan, Gali No.5, Fair Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
Email: india.stuff@rediffmail.com, Website: www.indiastuffyn.in, Ph: 011-28322824

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Thursday, 18th July, 2019 at 2.00 P.M.** at the registered office of the Company, Inter alia, to consider and approve the unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2019 and to consider any other business, if any. Further, the company has already closed the trading window for the insiders covered under the company's "Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Insiders w.e.f. 28-06-2019 till the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.indiastuffyn.in and also on the website of MSCI Limited www.mseil.in.

By order of the Board
For India Stuffyarn Limited
Sd/-
Bharat Bhushan
Managing Director
DIN: 00538006
Place: New Delhi
Date: 09-07-2019

दूल्हा लाया बारात पर दुल्हन कोई और ले गया

महालक्ष्मी ब्यूरो

बुलंदशहर, 09 जुलाई

छोटी-छोटी बातें अब रिशतों पर भी भारी पड़ने लगी हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जनपद के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। यहां बँडबाजे और फोटोग्राफर को नहीं लाने पर गौतमबुद्धनगर से आई बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा। वर पक्ष व वधू पक्ष के मध्य घंटों चली पंचायत के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। आनन-फानन अमरगढ़ क्षेत्र के एक अन्य युवक से ही दुल्हन की शादी कर दी गई।

जहांगीराबाद क्षेत्र के एक गांव में गौतमबुद्धनगर जनपद के दादरी क्षेत्र के एक गांव से रविवार रात बारात आयी थी। ग्रामीणों के



अनुसार, बारात देर रात लगभग 11 बजे गांव में पहुंची। जब ग्रामीणों ने देखा कि बारात के साथ बँड बाजा नहीं है तो इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। वहीं लड़की के लिए लाए गए सामान में भी कुछ अच्छ न होने के कारण परिजनों का

दी गयी। पुलिस के पहुंचने पर भी दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पायी। अंत में बारात को बिना दुल्हन के ही बैरंग लौटना पड़ा। बाद में अमरगढ़ क्षेत्र के एक गांव के दूसरे युवक के साथ युवती की शादी धूमधाम से दी गयी। गांव के अंदर बँडबाजे के साथ बारात की चढ़त हुई। दूसरी बरात के साथ ग्रामीणों ने दुल्हन को धूमधाम से विदा किया।

जहांगीराबाद के कोतवाली निरीक्षक नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि क्षेत्र के एक गांव में रविवार देर रात एक बारात आई थी, लेकिन बारात में बँड बाजे ना लाने पर लड़की पक्ष व लड़के पक्ष के बीच विवाद हो गया था। दोनों का थाने में समझौता करा कर एक दूसरे को घर भेज दिया है।



महानिदेशक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, श्री अभय, संयुक्त सचिव, ड्रग एब्ज्यूज कंट्रोल, म्यांमार, पोल के लिए केंद्रीय समिति। ब्रिगेडियर। जनरल निंग और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, भारत और ड्रग एब्ज्यूज कंट्रोल, म्यांमार के लिए केंद्रीय समिति, NCB, भारत और ड्रग के लिए 4 वें महानिदेशक स्तर की वार्ता में एक समूह की तस्वीर में।

मां-बाप का बेटी के ससुराल में बढ़ते दखल से टूट रहीं बेटियों की गृहस्थियां

महालक्ष्मी ब्यूरो

अलीगढ़, 09 जुलाई

सुनने में भले अटपटा लगे, लेकिन है सोलह आने सही। मां-बाप का बेटी के ससुराल में छोटी-छोटी बातों में दखल देने से ही परिवार तेजी से टूट रहे हैं। मामूली कहासुनी में भी नौबत तलाक तक पहुंच रही है। खासकर मां के कारण।

फिर ये हमारा कहना नहीं है।

गौर करें तो महिला थाने में जनवरी से जून तक करीब 52 मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों में परिवार परामर्श केन्द्र में काउंसिलिंग चल रही है। काउंसिलिंग में 17-18 मामले ऐसे सामने आए हैं, जिसमें मायके पक्ष के हस्तक्षेप से पति-पत्नी के रिश्तों में खटास आई है। काउंसिलरों की मानें तो ससुराल में नवविवाहिताएं छोटी-छोटी बातों को इशू बना लेती हैं। सास, ननद अगर किसी बात को लेकर टोका-टाकी करती हैं तो उसकी भी शिकायत फोन पर अपनी मां व अन्य परिजनों से करती



हैं। इसको लेकर मायके पक्ष के लोग खासतौर पर मां हस्तक्षेप करना शुरू कर देती हैं। इन मामलों में पति की शिकायत यह रहती है कि पत्नी एक-एक बात अपनी मां को बताती हैं, ऐसे में सासु मां अपनी बेटी को समझाने के बजाय उसे शह और दे देती हैं, जिससे उनमें सहने की क्षमता कम हो जाती है। वह मायके का सपोर्ट मिलने पर लड़ने पर आमदा रहती हैं। अनबन होने पर वह मायके जाने की धमकी देती हैं। इस्तेव्तर महिला थाना की सुनीता मिश्रा ने बताया कि महिला

पक्ष का कहना होता है कि दहेज को लेकर उनका उत्पीड़न किया जाता है। दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनने से रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं।

सोशल मीडिया पर पति-पत्नी को लेकर कहानी वायरल सोशल मीडिया पर पति-पत्नी के बीच झगड़े की कई कहानियां वायरल हो रही हैं। इसमें एक कहानी है कि एक नवविवाहिता का पति से विवाद हो गया। इस पर नवविवाहिता ने अपनी मां को फोन करके बताया कि पति से उसका झगड़ा हो गया है। अब वह यहां रहना नहीं चाहती, इसलिए वह मायके आ रही है। इस पर उसकी मां ने उसे डांटते हुए कहा कि यहां आओ तो उसकी पत्नी अपनी मां से शिकायत कर देती है। पिछले दिनों अनबन होने पर सासु मां ने बेटी को समझाने

पति भी माफी मांगने लगा। दोनों में खुद सुलह हो गई। थाना बनादेवी क्षेत्र के उदला के रहने वाले एक युवक ने बताया कि उसकी शादी को दो साल हुए हैं। एक बेटा भी है। किसी बात को लेकर अगर झगड़ा हो जाता है तो उनकी पत्नी अपनी मां से शिकायत कर देती है। पिछले दिनों अनबन होने पर सासु मां ने बेटी को समझाने

के बजाय घर बुला लिया। इसके बाद उत्पीड़न का मुकदमा डाल दिया। जमालपुर हमददनगर निवासी युवक का कहना है कि उनकी पत्नी संयुक्त परिवार में नहीं अपना नहीं चाहती है। इसके चलते घर में आए दिन क्लेश होती रहती है। उसके मायके पक्ष के लोग भी उसे समझाने के बजाय उसे और उकसा दिया। इसको लेकर वह अपने मायके चली गई।

स्थापित 1835

सैकड़ों समस्याएं?

नई ताकत सेहत जवानी व उमंग के साथ विवाहित जीवन खुशीयों से बिताये शीघ्रपतन, नपुंसकता, शुगर व निसंतान दम्पति निराश न हों इलाज के लिए अभी फोन करें या मिलें।

अलताज दवाखाना दिल्ली-53
www.altaj.net
09999468085-09899509822

श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन

बडवानी, 09 जुलाई (ह.स.)

आज यहां बावनगजा सिद्धक्षेत्र पर श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन प्रारम्भ हुआ। विधान में सम्मिलित तरुण मित्र परिषद के महासचिव अशोक जैन ने बताया कि प्रारम्भ में विधान में सम्मिलित इन्द्राणियों द्वारा घटयात्रा के पश्चात आयोजनकर्ता बिहारी लाल पौद्धार,



परिवार दिल्ली द्वारा मुनि विराट सागर महाराज के सानिध्य में ध्वजारोहण किया गया। प्रतिष्ठाचार्य नितिन जैन, खुरई (इन्दौर) के संचालन में इस विधान में लगभग 150 श्रद्धालु भाग ले रहे हैं जिनमें अधिकतर दिल्ली से पधारे हैं। इस अवसर पर प्रवचन करते हुए मुनि विराट सागर जी ने कहा कि प्राणीमात्र को मोह-माया का लोभ अर्थात परिग्रह त्याग कर धर्म मार्ग पर चलने से ही आत्म सुख की प्राप्ति होगी। इससे पूर्व सभी श्रद्धालुओं ने मुनि प्रमाण सागर जी का आशीर्वाद लिया। अष्टाह्निका के अवसर पर आयोजित यह विधान 15 जुलाई तक चलेगा। इस विधान में संजीव जैन, प्रवीन जैन, ललित पौद्धार परिवार व जैन समाज बैंक एन्वलेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली के साथ बावनगजा ट्रस्ट कमेटी पुराण सहयोग कर रहे हैं।

घायल दरोगा दुर्ग विजय सिंह की दिल्ली के अस्पताल में मौत

मिर्जापुर, 09 जुलाई (ह.स.)

बदमाशों की गोली से मुजफ्फरनगर में घायल दरोगा दुर्ग विजय सिंह का मंगलवार सुबह दस बजे इलाज के दौरान निधन हो गया। वे बीते मंगलवार को जिला कारागार में निरुद्ध शांति बदमाश रोहित उर्फ सांडू को पेशी पर मुजफ्फरनगर ले गए थे। पेशी से लौटते समय एक ढाबे के पास रोहित के साथी विजय सिंह पर हमला कर उसे छुड़ा ले गए थे। दरोगा विजय मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के दतौली गांव के मूल निवासी थे। पहले वे जौनपुर में तैनाथ थे। इसी वर्ष 14 जून को उनका मिर्जापुर स्थानांतरण हुआ था। ज्ञात हो की पिछले मंगलवार 2 जुलाई को मिर्जापुर पुलिस मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जोहरा निवासी सुपारी किलर रोहित को मुजफ्फरनगर कोर्ट में पेश करने आई थी। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस उसे वापस मिर्जापुर ले जा रही थी। पानीपत खटीमा राजमार्ग पर जानसठ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गांव सलारपुर के पास एक ढाबे पर दोपहर में खाना खाने के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर हमला करके शांति अपराधी रोहित को पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया था। इस दौरान पेट और कमर में गोलियां लगने से उस निरीक्षक दुर्ग विजय सिंह गंभीर घायल हो गए थे।

